



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402

Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : TED 02 (24509) WC

Date : 29 December 2023

TECHNICAL COMMITTEE : Automotive Primemovers, Transmission Systems and Internal Combustion Engine, TED 02

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Automotive Primemovers, Transmission Systems and Internal Combustion Engine Sectional Committee, TED 02. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : TED 02 (24509) WC

Title of the document : INTERNAL COMBUSTION ENGINES - PISTON RINGS - PART 2: COIL-SPRING-LOADED OIL CONTROL RINGS OF NARROW WIDTH MADE OF CAST IRON

Document Type : New Indian Standard (Identical adoption of ISO 6621-2: 2013)

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) *This part of ISO 6626 specifies the essential dimensional features of coil-spring-loaded oil control rings made of cast iron, types DSF-C, SSF, GSF, DSF, SSF-L, DSF-NG and DSF-CNP. It is applicable to those piston rings in sizes 60 mm to 110 mm, inclusive, for reciprocating internal combustion engines for road vehicles and other applications.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 27 February 2024

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at ted@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
P. V. Srikanth
SC 'D' & HEAD (Transport Engineering Department)
Email: ted@bis.gov.in



व्यापक परिचालन में मसौदा

हमारा सन्दर्भ : TED 02 (24509) WC

दिनांक : 29-12-2023

तकनीकी समिति : Automotive Primemovers, Transmission Systems and Internal Combustion Engine Sectional Committee, TED 02

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : TED 02 (24509) WC

शीर्षक : आंतरिक दहन इंजन — पिस्टन रिग — भाग 2: कास्ट आयरन से बने संकीर्ण चौड़ाई के कॉइल-स्प्रिंग-लोडेड तेल नियंत्रण रिग

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 27 February 2024

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय,

विभाग प्रमुख का नाम : P. V. Srikanth
SC 'D' & HEAD (Transport Engineering Department)
ई-मेल : ted@bis.gov.in